

29th September 2025
GIL/2025-26/110

To,

The BSE Limited. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai – 400 001 Fax No.: 022- 22721919 Scrip Code- 533282	The Listing Department The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C-1, Block-G, Bandra - Kurla Complex, Bandra(east), Mumbai- 400 051 Fax No.: 022-2659 8120 Company Code: GRAVITA
---	---

Sub: Newspaper Advertisement regarding opening of Special Window for re-lodgement of transfer requests of physical shares

Dear Sir/Madam,

Pursuant to SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of the advertisement published in “Financial Express” and “Nafa Nuksan” newspapers, on 29th September, 2025 intimating shareholders regarding opening of Special Window for re-lodgement of transfer requests of physical shares.

Kindly take the same on record and acknowledge receipt

Thanking you.

Yours Faithfully
For **Gravita India Limited**

Nitin Gupta
(Company Secretary)
FCS: 9984

Regd. Office:

‘SAURABH’, Chittora Road, Diggi-Malpura Road
Tehsil: Phagi, JAIPUR- 303 904, Raj. (INDIA)
Phone: +91-141-2623266, 2622697 FAX : +91-141-2621491
Email: companysecretary@gravitaIndia.com



GRAVITA

GRAVITA INDIA LTD.
Regd. Office: 'SAURABH', Chittora Road, Harsulia Mod, Diggi-Malpura Road, Tehsil: Phagi, Jaipur- 303 904, Raj, (INDIA)
Phone: +91-141-2623266, 2622697 Fax: +91-141-2621491
Web: www.gravitaindia.com CIN: L29308RJ1992PLC006870
E-mail : companysecretary@gravitaindia.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS
Pursuant to the SEBI's Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2 nd July, 2025, shareholders are informed that a special window is open only for re-lodgement of transfer deeds, lodged prior to April 01, 2019, and which were rejected / returned / not attended to, due to deficiency in the documents/process/ or otherwise.
This facility of re-lodgement is available from July 07, 2025, to January 06, 2026.
Shareholders are requested to re-lodge such cases with the Company's RTA, Latest by January 06, 2026 at KFin Technologies Limited-Selenium Building, Tower-B Plot No 31 & 32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda Serilingampally, Hyderabad-500032, Telangana at einward.ris@kfintech.com
*
By the order of the Board of Directors
For Gravita India Limited
Sd/-
Nitin Gupta
Company Secretary & Compliance Officer
FCS:-9984

Place : Jaipur
Date : 28th September, 2025



lassifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING.

CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)
Book classified ads at your nearest Express Group's authorised Classified Ad Depots

EAST
PATPARGANJ : CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024, 22090987, 22235837, **PREET VIHAR** : AD BRIDGE COMMUNICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210, **SHAKARPUR** : PARICHAY ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

WEST
JANAKPURI : TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206, 25530307, **KAROL BAGH (REGHARPURA)** : K R ADVERTISERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, **KARAM-PURA** : GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377, **NEW MOTI NAGAR** : MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183, 9555945923, **MOTI NAGAR** : UMA ADVERTISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, **RAMESH NAGAR** : POSITIVE ADS, Ph.: 9891195327, 9310006777, 65418908, **TILAK NAGAR** : SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670, 20518836, **VIKAS PURI** : AAKAR ADVT. MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CENTRAL
CHANDNI CHOWK : RAMNIWAS ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, **CONNAUGHT PLACE** : HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

NORTH
TIS HAZARI COURT : SAI ADVERTISING, Ph.: 9811117748
KINGWAY CAMP : SHAGUN ADVERTISING, Ph.: 9818505505, 27458589, **PATEL CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION)** : MAHAN ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350304609, 7042590693, **PITAMPURA (PRASHANT VIHAR)** : PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47057929

SOUTH
CHATTARPUR : A & M MEDIA ADVERTISING, Ph.: 9811602901, 65181100, 26301008, **KALKAJI** : ADWIN ADVERTISING, Ph.: 9811111825, 41605556, 26462690, **MALVIYA NAGAR** : POOJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866, **YUSUF SARAI** : TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

NCR
FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA) ADVERTISING, Ph.: 9811195834, 0129-2412798, 2434654, **FARIDABAD (NIT, KALYAN SINGH CHOWK)** : PULSE ADVERTISING, Ph.: 9818078183, 9811502088, 0129-4166498, **FARIDABAD** : SURAJ ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810680954, 9953526681, **GURGAON** : SAMBODHI MEDIA PVT. LTD., Ph.: 0124-4065447, 9711277174, 9910633399, **GURGAON** : AD MEDIA ADVERTISING & PR, Ph.: 9873804580, **NOIDA (SEC. 29)** : RDX ADVERTISING, Ph.: 9899268321, 0120-4315917, **NOIDA (SEC. 65)** : SRI SAI MEDIA, Ph.: 0120-4216117, **NOIDA (SEC. 58)** : JAI LAKSHMI ADVERTISERS, Ph.: 9873807457, 9911911719 **GHAZIABAD (HAPUR ROAD TIRAHA, NR GURUDWARA)** : TIRUPATI BALAJI ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9818373200, 8130640000, 0120-4561000

EDUCATION (IAS & PMT ACADEMIES)
FRIENDS PUBLICITY SERVICE 23287653, 23276901, 9212008155
For CAD enquiries please contact :
ROHIT JOSHI 9818505947, **ABHINAV GUPTA** 9910035901
For booking classified ads, please contact 011-23702148, 0120-6651215, E-mail : delhi.classifieds@expressindia.com

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. **NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.** INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")

PUBLIC ANNOUNCEMENT



(Please scan this QR code to view the DRHP)



LASER POWER & INFRA LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Laser Cables Private Limited' at Kolkata, West Bengal, as a private limited company under the provisions of the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated January 7, 1988, issued by the Registrar of Companies, West Bengal. Subsequently, pursuant to a resolution dated December 7, 2015 and January 28, 2016 passed by our Board and our Shareholders, respectively, the name of our Company was changed from 'Laser Cables Private Limited' to 'Laser Power & Infra Private Limited' and a fresh certificate of incorporation pursuant to change of name dated February 3, 2016 was issued by the RoC. Thereafter, pursuant to a board resolution dated August 28, 2025 and a special resolution passed by the shareholders dated September 1, 2025, our Company was converted from a private company to a public limited company and the name of our Company was changed to 'Laser Power & Infra Limited' and a fresh certificate of incorporation pursuant to change of name dated September 8, 2025 was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. For further details relating to the changes in the name and registered office of our Company, see "*History and Certain Corporate Matters – Brief history of our Company*" and "*History and Certain Corporate Matters - Changes in the registered office of our Company*" on page 270 of the Draft Red Herring Prospectus dated September 27, 2025 ("DRHP").

Corporate Identity Number: U14220WB1988PLC043591

Registered Office: 4A, Pollock Street, 3rd Floor, Kolkata - 700 001, West Bengal, India. Corporate Office: Adventz Infinity@5, 19th Floor, BN Block, Sector V, Bidhannagar, Kolkata - 700 091, West Bengal, India
Contact Person: Payal Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer | Tel: +91 33 4822 9195 | E-mail: investor.grievance@laserpowerinfra.com | Website: www.laserpowerinfra.com

OUR PROMOTERS: DEEPAK GOEL, DEVESH GOEL, AKSHAT GOEL AND RAKHI GOEL

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ("EQUITY SHARES") OF LASER POWER & INFRA LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹5 PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹12,000 MILLION (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹8,000 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 AGGREGATING UP TO ₹4,000 MILLION COMPRISING UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH AGGREGATING UP TO ₹2,250 MILLION BY DEEPAK GOEL, UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH AGGREGATING UP TO ₹500 MILLION BY RAKHI GOEL AND UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH AGGREGATING UP TO ₹1,250 MILLION BY DEVESH GOEL (THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS") AND SUCH OFFER BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS, THE "OFFER FOR SALE").

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY CONSIDER AN ISSUE OF SPECIFIED SECURITIES, AS MAY BE PERMITTED UNDER THE APPLICABLE LAW, TO ANY PERSON(S), AGGREGATING UP TO ₹1,600.00 MILLION AT ITS DISCRETION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS ("PRE-IPO PLACEMENT"). THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SCRR. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, SHALL NOT EXCEED 20% OF THE SIZE OF THE FRESH ISSUE. PRIOR TO THE COMPLETION OF THE OFFER, OUR COMPANY SHALL APPROPRIATELY INTIMATE THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT, PRIOR TO ALLOTMENT PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, THAT THERE IS NO GUARANTEE THAT OUR COMPANY MAY PROCEED WITH THE OFFER, OR THE OFFER MAY BE SUCCESSFUL AND WILL RESULT INTO LISTING OF THE EQUITY SHARES ON THE STOCK EXCHANGES. FURTHER, RELEVANT DISCLOSURES IN RELATION TO SUCH INTIMATION TO THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT (IF UNDERTAKEN) SHALL BE APPROPRIATELY MADE IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE RED HERRING PROSPECTUS AND PROSPECTUS. OUR COMPANY SHALL REPORT ANY PRE-IPO PLACEMENT TO THE STOCK EXCHANGES, WITHIN 24 HOURS OF SUCH PRE-IPO PLACEMENT (IN PART OR IN ENTIRETY).

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND ALL EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER), AND [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED BENGALI NATIONAL DAILY NEWSPAPER), BENGALI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF WEST BENGAL, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company in consultation with the BRLMs, for reasons to be recorded in writing, may extend the Bid/ Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice and also by indicating the change on the websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to the Designated Intermediaries and Sponsor Banks, as applicable.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "SCRR"), read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Category"), provided that our Company, in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Category to Anchor Investors on a discretionary basis (the "Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds only, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which Equity Shares are allocated to Anchor Investors. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Category (excluding the Anchor Investor Portion) (the "Net QIB Category"). Further, 5% of the Net QIB Category shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Category shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from the Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Category, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion (defined hereinafter) will be added to the remaining QIB Category for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Investors ("NII") ("Non-Institutional Category"), of which one-third of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with a Bid size of more than ₹200,000 and up to ₹1,000,000 and two-thirds of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with a Bid size of more than ₹1,000,000 and under-subscription in either of these two sub-categories of the Non-Institutional Category may be allocated to Bidders in the other sub-category of the Non-Institutional Category in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors ("RIIs") ("Retail Category"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All Bidders (except Anchor Investors) shall mandatorily participate in this Offer only through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process and shall provide details of their respective bank account (including UPI ID in case of UPI Bidders (defined hereinafter)) in which the Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or the Sponsor Bank(s), as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see "*Offer Procedure*" beginning on page 492 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP dated September 27, 2025, with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and with the Stock Exchanges on September 28, 2025. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges has been made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such publication of public announcement by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com, on the website of the Company at www.laserpowerinfra.com and on the websites of the Book Running Lead Managers ("BRLMs"), i.e. IIFL Capital Services Limited, (formerly known as IIFL Securities Limited) and ICICI Securities Limited at www.iiflcapital.com and www.icicisecurities.com, respectively. Our Company invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges, with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of the comments to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned below in relation to the Offer. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs in relation to the Offer on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the date of publication of this public announcement.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is drawn to "*Risk Factors*" beginning on page 37 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after the Red Herring Prospectus ("RHP") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in RHP from DRHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on the mainboard of BSE and NSE

For details of the share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them of our Company, please see the section titled "*Capital Structure*" on page 107 of the DRHP. The liability of the members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled "*History and Certain Corporate Matters*" on pages 270 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE OFFER
 IIFL CAPITAL	 ICICI Securities	 MUFG MUFG Intime
IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Limited) 24 th floor, One Lodha Place, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013, Maharashtra, India Telephone: +91 22 4646 4728 E-mail: laserpower ipo@iiflcap.com Investor grievance e-mail: ig_ib@iiflcap.com Contact person: Gaurav Mittal / Pawan Kumar Jain Website: www.iiflcapital.com SEBI registration number: INM000010940	ICICI Securities Limited ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Telephone: +91 22 6807 7100 E-mail: laserpower ipo@icicisecurities.com Investor grievance e-mail: customercare@icicisecurities.com Contact person: Kishan Rastogi / Ashnik Jaisar Website: www.icicisecurities.com SEBI registration number: INM000011179	MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited) C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India Telephone: +91 810 811 4949 E-mail: laserpower ipo@in.mpmis.mufg.com Investor grievance e-mail: laserpower ipo@in.mpmis.mufg.com Contact person: Shanti Gopalkrishnan Website: www.in.mpmis.mufg.com SEBI registration number: INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

Place: Kolkata, West Bengal
Date: September 28, 2025

For **LASER POWER & INFRA LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Payal Agarwal
Company Secretary and Compliance Officer

LASER POWER & INFRA LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP dated September 27, 2025, with SEBI and the Stock Exchanges on September 28, 2025. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.laserpowerinfra.com and on the websites of the Book Running Lead Managers ("BRLMs"), i.e. IIFL Capital Services Limited, (formerly known as IIFL Securities Limited) and ICICI Securities Limited at www.iiflcapital.com and www.icicisecurities.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see "*Risk Factors*" on page 37 of the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges and the details as will be set out in the RHP, when filed. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges for making any investment decision and should instead rely on the RHP, for making investment decision.

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere. This announcement has been prepared for publication in India only and is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws in the United States. There will be no public offering in the United States.

Adfactors 471/25



THE BIGGEST CAPITAL
ONE CAN POSSESS
KNOWLEDGE

